

केन्द्रीय विद्यालय क्र.१ देवलाली
(पुस्तकालय विभाग)
फंक्शनल हिन्दी में करियर

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, बावजूद इस विविधतापूर्ण देश में अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं, वहीं दूसरी ओर हिन्दी बोलने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल, सूचना-प्रौद्योगिकी, संगणक और मीडिया के बढ़ते प्रभावों के कारण ही आज फंक्शनल हिन्दी के क्षेत्र में रोजगार के नए-नए द्वार खुल रहे हैं। आज इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की डिमांड है, उतनी मात्रा में उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है।

★ **क्या है फंक्शनल हिन्दी?**

फंक्शनल हिन्दी का अर्थ है- language for specific purpose फंक्शनल हिन्दी, हिन्दी का वह रूप है, जिसे किसी प्रयोजन विशेष या उद्देश्य से जोड़ कर देखा जाता है। यानी दैनिक जीवन या रोजमर्रा की लाइफ से जुड़े किसी भी क्षेत्र में हिन्दी के जिस रूप का इस्तेमाल हम करते हैं, वही फंक्शनल हिन्दी है।

★ **कितना उपयोगी है यह विषय**

हिन्दी को प्रमोट करने के लिए कई तरह के प्रयास, कार्यक्रम और हिन्दी दिवस सरीखे आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में फंक्शनल हिन्दी अपनी उपयोगिता के कारण खुद-ब-खुद प्रमोट हो रही है। जहां एक ओर, हम हिन्दी को पूरी तरह स्थापित कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज फंक्शनल हिन्दी में छुपी संभावनाओं के कारण न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी छात्र इस भाषा को अपना रहे हैं। फंक्शनल हिन्दी फ्रेंच, जर्मन, जैपनीज भाषा की तरह ही फॉरेन लैंग्वेज के रूप में भी धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है।

★ **करियर की संभावनाएं**

करियर की बात करें, तो आज जो क्षेत्र ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, वे हैं-मीडिया (न्यूजपेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी), एडवरटाइजिंग, दुभाषिया, हिन्दी अनुवादक आदि। इनके अलावा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में हिन्दी ट्रांसलेटर्स, असिस्टेंट्स, मैनेजर (ऑफिशियल लैंग्वेज) आदि के वैकेंसीज भी समय-समय पर निकलते रहते हैं। यानी आप सरकारी क्षेत्र को सुरक्षित मानते हुए वहां जाना चाहें अथवा यदि प्राइवेट क्षेत्र को बेहतर मानें, तो ऐसी स्थिति में फंक्शनल हिन्दी आपको दोनों तरह के क्षेत्रों में जाने का अवसर प्रदान करती है।

★ **भारत में फंक्शनल हिन्दी की पढ़ाई**

फंक्शनल हिन्दी की पढ़ाई देश केलगभग सभी प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हो रही है। जैसे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ, कानपुर आदि। इसके अलावा, केंद्रीय हिन्दी संस्थान, इगू आदि में भी फंक्शनल हिन्दी के कोर्सेस उपलब्ध हैं।

इस विषय में फुल-टाइम बेसिस और शॉर्ट-टर्म बेसिस, दोनों स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ संस्थान में आप इसे वैकल्पिक विषय के रूप में भी, तो कुछ ऐसे संस्थान भी हैं, जहां इसे आप मुख्य विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। मसलन, दिल्ली विश्वविद्यालय में इस विषय में बीए स्तर की पढ़ाई होती है, तो एमए में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसी तरह, जेएनयू और केंद्रीय हिन्दी संस्थान से आप इसमें एडवांस्ड-लेवल यानी एमफिल या पीएचडी स्तर की पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहीं, इगू, जामिया मिलिया, भारतीय विद्या भवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आदि से आप किसी खास क्षेत्र में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं।

★ **कौन कर सकता है यह कोर्स**

जिन्होंने दसवीं और बारहवीं तक हिन्दी पढ़ी है और जो व्याकरण का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वे यह कोर्स कर सकते हैं। वैसे, जहां तक करियर की बात है, तो यह बेहद जरूरी है कि आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो। आप भी बन सकते हैं..

हिन्दी अनुवादक, सीनियर-जूनियर हिन्दी टाइपिस्ट, स्टेनो, हिन्दी सहायक, दुभाषिया, विज्ञापन लेखक, स्लोगन लेखक,

केन्द्रीय विद्यालय क्र.१ देवलाली

(पुस्तकालय विभाग)

पूरफ रीडर्स, रेडियो जाँकी, एंकर्स, कॉरस्पॉन्डेंस, एडिटर्स, अभिवादन कार्ड निर्माता, रूपांतरण लेखक, हिन्दी खेल कमेंटेटर आदि।

★ एकेडमिक कोर्सेस

- शार्ट-टर्म कोर्सेस इन हिन्दी लैंगवेज
- बीए इन हिन्दी लैंगवेज
- एमए इन हिन्दी लैंगवेज
- जर्नलिज्म इन हिन्दी लैंगवेज
- हिन्दी ट्रान्सलेटर
- क्रिएटिव राइटिंग इन हिन्दी लैंगवेज
- मीडिया कोर्सेस
- मास-कम्युनिकेशन इन हिन्दी लैंगवेज
- एमफिल, पीएचडी इन हिन्दी लैंगवेज

★ यहाँ हैं रोजगार की संभावनाएं

- गवर्नमेंट सेक्टर में
- एकेडमिक क्षेत्र में
- मीडिया-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक
- क्रिएटिव राइटिंग/एडवरटाइजिंग
- एम्बेसीज साहित्य
- स्पोर्ट्स आदि में।

★ प्रमुख संस्थान

- www.du.ac.in दिल्ली विश्वविद्यालय
- www.lkouniu.ac.in लखनऊ विश्वविद्यालय
- www.kanpuruniversity.org कानपुर विश्वविद्यालय
- www.dauniv.ac.in इंदौर विश्वविद्यालय
- www.bvbdelhi.org भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली
- www.ignou.ac.in इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू), नई दिल्ली
- www.iimc.nic.in इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली
- www.jmi.nic.in जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली